

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877

Email : bfldevelopers@gmail.com • Website : www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") पर आयोजित होने वाली 27वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 को दोपहर 03:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी, जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के साथ पढ़ा जाये। यह प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) के द्वारा जारी किये गए जर्नल परिपत्र संख्या 2/2022, 21/2021, 02/2021, 20/2020, 17/2020 एवं 14/2020 दिनांकित 5 मई, 2022, 14 दिसम्बर 2021, 13 जनवरी 2021, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल 2020 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 ("सेबी परिपत्रों") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) परिपत्र संख्या के अनुपालन में है। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग ले सकेंगे। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- उक्त परिपत्रों की अनुपालना के अंतर्गत, कम्पनी की एजीएम का नोटिस, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज कम्पनी के सदस्यों को उनके ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे जो कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ पंजीकृत हैं। उक्त सभी दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.bflfin.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com व सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों को इनकी भौतिक प्रति नहीं भेजी जायेगी।
- ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया :**
(ए) भौतिक रूप में कम्पनी के शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. या कम्पनी के पास ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराए हैं, उनसे निवेदन है कि वह ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट कराने के लिए फॉलियो नंबर की जानकारी व पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति को bfldevelopers@gmail.com पर कम्पनी को या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर आरटीए को प्रेषित करें।
(बी) डीमेट रूप में कम्पनी के शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराए हैं, उनसे निवेदन है कि वह उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करा लें जहाँ उनके डीमेट खाते हैं।
- ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने की प्रक्रिया :** कम्पनी की एजीएम के नोटिस में शामिल व्यवसायों पर वोट डालने के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम (ई-वोटिंग) के जरिए उनका वोट डालने का अवसर मिलेगा।
डीमेट रूप व भौतिक रूप में कम्पनी के शेयर रखने वाले सदस्यों एवं ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने से संबंधित प्रक्रिया का विवरण कम्पनी की एजीएम के नोटिस में दिया गया है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.bflfin.com पर भी उपलब्ध है।
इस संबंध में किसी प्रकार का संचार/शिकायत के लिए सदस्य कम्पनी के आरटीए को ई-मेल पते helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर लिख सकते हैं।
उक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी व फायदे के लिए दी जा रही है जो आवश्यक परिपत्रों की अनुपालना में है।

वास्ते- बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

हस्ता./-

महेन्द्र कुमार वैद

प्रबन्ध निदेशक (DIN: 00009828)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 09 अगस्त, 2022

BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office : 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 • Ph.: 9214018877
 E-mail : bfldevelopers@gmail.com • Website : www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

INFORMATION TO THE MEMBERS REGARDING 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCING ("VC") AND OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

1. The 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 20th day of September, 2022 at 03:00 P.M. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 2/2022, 21/2021, 02/2021, 20/2020, 17/2020 & 14/2020 dated May 05, 2022, December 14, 2021, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 respectively ("SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in Notice calling the AGM. Members will be able to attend AGM through VC/OAVM. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2021-22, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.bflfin.com, website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. No physical copies will be dispatched to the members.
3. **Manner of Registering/ updating email addresses:**
 - a. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company or MCS Share Transfer Agent Ltd., Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at bfldevelopers@gmail.com or to RTA at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
 - b. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
4. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**
 Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system ("e-voting").
 The manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.bflfin.com. All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA to its email address helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the relevant circulars.

For BFL Asset Finvest Limited
 Sd/-

Place: Jaipur
 Date: August 09, 2022

Mahendra Kumar Baid
 Managing Director (DIN: 00009828)